



April 29, 2022

The BSE Limited,
Listing Department,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai – 400 001
Script Code: 540173

National Stock Exchange of India Limited,
Listing Department
“Exchange Plaza”
Bandra Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai – 400 051
Symbol: PNBHOUSING

Dear Sir(s),

Sub: Newspaper advertisement pertaining to financial results of Q4/ FY 2021- 22

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended, please find enclosed copies of the newspaper advertisement pertaining to financial results of the Company for the Quarter and Financial Year ended March 31, 2022. The advertisements were published in Business Standard (English and Hindi).

This information will also be hosted on the Company's website, at <https://www.pnbhousing.com/>

Thanking you

Yours faithfully
For PNB Housing Finance Limited

Digitally signed by SANJAY JAIN
DN: cn=SANJAY JAIN, o=PNB HOUSING FINANCE LIMITED, email=SANJAY.JAIN@PNBHFL.COM, c=IN
**SANJAY
JAIN**
Sanjay Jain
Company Secretary & Head Compliance
Encl: a/a



LAURUS Labs
Knowledge . Innovation . Excellence
Laurus Labs Limited
Regd. Office: Plot No.21, Jawaharal Nehru Pharma City, Parawada, Visakhapatnam - 531 021, Andhra Pradesh, India.
Corp. Office: 2nd Floor, Serene Chambers, Road No.7, Banjara Hills, Hyderabad - 500034, Telangana, India.
Tel: +91 40 3980 4333 ; Fax: +91 40 3980 4320 ; e-mail: secretarial@lauruslabs.com; Website: www.lauruslabs.com

(CIN: L24239AP2005PLC047518)

Extract of Audited Consolidated Financial Results of Laurus Labs Limited for the year ended March 31, 2022 and Unaudited Consolidated Financial Results for the quarter ended March 31, 2022 which are prepared in compliance with Indian Accounting Standards.

Sl. No.	Particulars	Quarter ended			Year ended	
		31-Mar-22	31-Dec-21	31-Mar-21	31-Mar-22	31-Mar-21
1	Total revenue from operations	1,424.83	1,028.76	1,411.93	4,935.57	4,813.51
2	Net Profit for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	301.71	203.50	401.17	1,083.85	1,301.11
3	Net Profit for the period before tax (After Exceptional and/or Extraordinary items)	301.71	203.50	401.17	1,083.85	1,301.11
4	Net Profit for the period after tax (After Exceptional and/or Extraordinary items)	231.72	154.95	296.92	832.23	983.82
5	Total Comprehensive Income for the period	235.54	154.02	292.30	833.26	988.83
6	Net Profit for the period after tax (After Exceptional and/or Extraordinary items) attributable to:					
	(i) Equity holders of the Company	230.50	153.73	296.68	827.52	983.58
	(ii) Non-controlling interests	1.22	1.22	0.24	4.71	0.24
7	Total Comprehensive Income for the period attributable to:					
	(i) Equity holders of the Company	234.32	152.80	292.06	828.55	988.59
	(ii) Non-controlling interests	1.22	1.22	0.24	4.71	0.24
8	Equity Share Capital	107.47	107.47	107.32	107.47	107.32
9	Reserves (Excluding Revaluation Reserve) and Non-controlling Interests as shown in the Audited Balance Sheet				3,243.72	2,490.23
10	Earnings Per Share (Of ₹ 2/- each)					
	1. Basic : ₹ *	4.29	2.87	5.53	15.42	18.36
	2. Diluted : ₹ *	4.28	2.85	5.50	15.35	18.28

* Not annualised for quarter ended.


Notes:
1. Additional information on Audited standalone financial results for the year ended March 31, 2022 and Unaudited financial results for the quarter ended March 31, 2022

Sl. No.	Particulars	Quarter ended			Year ended	
		31-Mar-22	31-Dec-21	31-Mar-21	31-Mar-22	31-Mar-21
1	Total revenue from operations	1,377.66	932.58	1,398.74	4,707.04	4,768.72
2	Profit before tax	284.97	141.95	396.38	975.41	1,274.63
3	Profit after tax	221.22	109.16	292.78	750.09	956.11
4	Total Comprehensive Income for the period	223.01	108.83	288.36	750.89	961.23

2. The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Year ended Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Year ended Financial Results are available on the websites of the Stock Exchanges and the Company namely www.bseindia.com, www.nseindia.com and www.lauruslabs.com.
3. The above financial results of the Company as reviewed by the Audit Committee has been approved by the Board of Directors at its meeting held on April 28, 2022.

By order of the Board
For **Laurus Labs Limited**
Dr. Satyanarayana Chava
Whole Time Director & Chief Executive Officer

Place: Hyderabad
Date: April 28, 2022



Regd. Office: 'Trishul', 3rd floor, Opp. Samaratheshwar Temple, Near Law Garden, Ellisbridge, Ahmedabad - 380 006.
Corporate Office: 'Axis House' C-2, Wadia International Centre, Pandurang Budhkar Marg, Worli, Mumbai - 400 025.
CIN: L65110GJ1993PLC020769, Phone: 079-26409322, Fax: 079-26409321, Email: shareholders@axisbank.com

AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2022

PARTICULARS	Axis Bank (Standalone)				Axis Bank (Consolidated)			
	FOR THE QUARTER ENDED 31.03.2022	FOR THE YEAR ENDED 31.03.2022	FOR THE QUARTER ENDED 31.03.2021	FOR THE YEAR ENDED 31.03.2021	FOR THE QUARTER ENDED 31.03.2022	FOR THE YEAR ENDED 31.03.2022	FOR THE QUARTER ENDED 31.03.2021	FOR THE YEAR ENDED 31.03.2021
Total income from operations	21,999.58	82,597.37	19,035.12	75,609.83	23,000.69	86,114.19	19,850.11	77,974.28
Net Profit / (Loss) for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	5,478.75	17,382.56	3,569.67	8,805.84	5,902.69	18,929.46	3,957.20	9,750.08
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	5,478.75	17,382.56	3,569.67	8,805.84	5,902.69	18,929.46	3,957.20	9,750.08
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	4,117.77	13,025.48	2,677.06	6,588.50	4,417.73	14,119.29	2,941.41	7,195.50
Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	Refer note 1	Refer note 1	Refer note 1	Refer note 1	Refer note 1	Refer note 1	Refer note 1	Refer note 1
Paid-up equity share capital (Face value ₹2/- per share)	613.95	613.95	612.75	612.75	613.95	613.95	612.75	612.75
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	1,14,411.51 (As on 31 st March, 2022)	1,14,411.51 (As on 31 st March, 2022)	1,00,990.26 (As on 31 st March, 2021)	1,00,990.26 (As on 31 st March, 2021)	1,17,495.94 (As on 31 st March, 2022)	1,17,495.94 (As on 31 st March, 2022)	1,02,980.95 (As on 31 st March, 2021)	1,02,980.95 (As on 31 st March, 2021)
Earnings per Share (Face value ₹2/- per share) (for continuing and discontinued operations) (₹) (not annualised)								
- Basic	13.42	42.48	8.74	22.15	14.40	46.04	9.60	24.19
- Diluted	13.38	42.35	8.72	22.09	14.36	45.91	9.58	24.13
Securities Premium Account	51,505.24	51,505.24	51,229.39	51,229.39				
Net worth	1,07,194.56	1,07,194.56	93,734.10	93,734.10				
Outstanding Debts	1,85,133.86	1,85,133.86	1,42,873.16	1,42,873.16				
Outstanding Redeemable Preference Shares	Nil	Nil	Nil	Nil				
Debt Equity Ratio	1.61	1.61	1.41	1.41				
Capital Redemption Reserve	Nil	Nil	Nil	Nil				
Debt Service Coverage Ratio	Nil	Nil	Nil	Nil				
Debt to Equity Ratio	Nil	Nil	Nil	Nil				

Notes:
1. Information relating to Total Comprehensive Income and Other Comprehensive Income is not furnished as Ind AS is not yet made applicable to banks.
2. The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual Financial Results are available on the website of the Bank (www.axisbank.com) and on the Stock Exchange websites (www.nseindia.com and www.bseindia.com).
3. Previous period figures have been regrouped and reclassified, where necessary, to make them comparable with current period figures.

For and on behalf of the Board

Place: Mumbai
Date: 28th April, 2022
www.axisbank.com
AMITABH CHAUDHRY MD & CEO

ORIENT PAPER & INDUSTRIES LIMITED

CIN: L21010RI1936PLC00117
Regd. Office: Unit - VIII, Plot No. 7, Bhoanagar, Bhubaneswar - 751012 (Odisha),
Ph: (0674) 2396930, E-mail: cose@orientpaperindia.com,
Website: www.orientpaperindia.com

NOTICE OF POSTAL BALLOT

Members are hereby informed that pursuant to Section 110 of the Companies Act, 2013 (the Act) read with Rule 20 and Rule 22 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, Orient Paper & Industries Limited (the Company) is seeking approval from its Members for passing of Resolutions as set out in the Postal Ballot Notice dated 27th April, 2022, by way of electronic voting.

In terms of the Company Act, 2013 read with Rules made thereunder and in accordance with the guidelines prescribed by the Ministry of Corporate Affairs for holding general meetings/conducting postal ballot process through e-voting vide general circular issued in this connection, the Postal ballot notice along with the instructions regarding e-voting has been sent only by email on 28th April, 2022 to all the shareholders of the Company whose names appear on the Register of Members List of Beneficial Owners as on Friday, 22nd April, 2022 ('Cut-Off Date') received from the Depositories and whose e-mail address is registered with the Company's Depository Participant(s). Members are required to communicate their assent or dissent through remote e-voting system only. The Postal Ballot Notice is also available on the website of the Company at www.orientpaperindia.com, on the website of Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on the website of KFin Technologies Limited ('KFinTech') at https://levoting.kfintech.com.

Members whose email addresses are not registered can register the same in the following manner:
(i) Members holding shares in physical mode can register their e-mail address and mobile no. on the KFinTech website at https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/registration.aspx by providing the requisite details. In case of any query, shareholder may write to inward.ris@kfintech.com or contact Mr. Anil Kumar Labh, Practising Company Secretary (Membership No. FCS 4948), of M/s. A.K. Labh & Co. Company Secretaries, Kolkata, has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the Postal Ballot process, in fair and transparent manner.

The Company has engaged the services of KFinTech as the agency to provide e-Voting facility. The instructions for e-voting are provided as part of this Postal Ballot Notice which the members are requested to read carefully before casting their vote. Mr. Anil Kumar Labh, Practising Company Secretary (Membership No. FCS 4948), of M/s. A.K. Labh & Co. Company Secretaries, Kolkata, has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the Postal Ballot process, in fair and transparent manner. The e-voting period commences at 9:00 AM (IST) on Wednesday, 4th May, 2022 and ends at 5:00 PM (IST) on Thursday, 2nd June, 2022. The e-voting module shall be disabled by the KFinTech for voting thereafter. During the period, shareholders of the Company, holding shares, either in physical form or in dematerialized form, on the cut-off date of Friday, 22nd April, 2022, may cast their vote electronically. Once the vote on a resolution is cast, the shareholder shall not be allowed to change it subsequently. The Scrutinizer will submit his report, after completion of scrutiny, to the Chairman or any person authorized by him, on or before Saturday, 4th June, 2022. The declared results along with the report of the scrutinizer shall be forwarded to the BSE and NSE and shall be uploaded on the website of the Company www.orientpaperindia.com and on the website of KFinTech at https://levoting.kfintech.com or call at toll free no. 1800309401. Any grievance relating to e-voting may be addressed to Mr. S.V.Raju, Vice President, at e-mail id: inward.ris@kfintech.com

Place: Kolkata
Date: 28th April, 2022
For ORIENT PAPER & INDUSTRIES LIMITED
(P.K. SONTALHAIA)
President/ Finance & CFO

THE INDIAN HUME PIPE COMPANY LIMITED

CIN : L15100MH1928PLC001255
Regd. Office: Construction House, 5, Walchand Hirachand Road, Ballard Estate, Mumbai - 400 001
Tel: +91-22-22618091, +91-22-40748181 Fax: +91-22-22658663
E-mail: info@indianhumpipe.com Website: www.indianhumpipe.com

NOTICE TO THE SHAREHOLDERS

Transfer of shares in respect of which Dividend has not been claimed for seven consecutive years or more, as per Investor Education and Protection Fund (IEPF).

Notice is hereby given to the Shareholders of the Company that pursuant to Section 124(6) of the Companies Act, 2013, 34 shares, in respect of which dividend has not been encashed or claimed for seven consecutive years or more from Financial Year 2014-15, shall be transferred in the name of Investor Education and Protection Fund (IEPF) in accordance with the provisions of Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2015 (the "Rules").

The required communication in this regard has been sent to the respective shareholders on 27th April, 2022 by Registrar Post, the concerned Shareholders whose dividend for the financial year 2014-15 onwards for seven consecutive years or more remained unpaid/ unclaimed and the details of such Shareholders have been put up on the Company's website: www.indianhumpipe.com. In compliance with the IEPF Rules, Notice is hereby given to the Shareholders whose Dividend has remained unclaimed / unpaid from Financial year 2014-15 onwards for seven consecutive years or more, that the Company shall initiate action for transfer of Shares to IEPF within 30 days from the due date, i.e., 8th September, 2022, without any further Notice.

Further, Shareholders holding shares in physical form and whose shares are liable to be transferred to IEPF, may please note that the Company will be issuing new Share Certificate(s) in lieu of the Original Share Certificate(s) held by them for the purpose of conversion into Demat form and subsequent transfer in Demat accounts operated by IEPF Authority with both the Depositories respectively. Upon such issue, the Original Share Certificate(s) which are registered in the name(s) of such Shareholders shall stand automatically cancelled and be non-repatriation-transferable. In case of Shareholders holding shares in Demat form, the transfer of shares to the Demat accounts of the IEPF Authority as indicated hereinabove shall be effected by the Company through the respective Depositories by way of Corporate Action. Shareholders are requested to note that the list of concerned Shareholders is put up on the Company's website should be regarded as and shall be deemed to be adequate notice in respect of issue of new Share Certificate(s) for the purpose of transfer of shares to Demat accounts of the IEPF Authority pursuant to the amended Rules. Subsequent to such transfer of shares, the Company shall be liable to the IEPF. No claim shall lie against the Company in respect of the Unclaimed Dividends and the Shares transferred to IEPF. On transfer of Dividend / Shares to IEPF, Shareholders may claim the same by making an application to IEPF in Form IEPF-5, as per the Rules. The said Form is available on the website of IEPF at: http://iefp.gov.in/IEPF/arefund.html. The concerned Shareholders are earnestly requested to claim their Dividends from the Company at The Indian Hume Pipe Company Limited, 2nd Floor, Construction House, 5, Walchand Hirachand Road, Ballard Estate, Mumbai - 400 001. Tel. No: 022 22618091/92, 40748181; Fax No: 022-22658663; e-mail: investor@indianhumpipe.com or info@indianhumpipe.com or the Company's RTA M/s. Link Intime India Pvt. Ltd. C-101, 24th Park, LBS Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400083. Tel. No: 022-49118127/18. Fax No: 022-49118120. e-mail: helpdesk@linkintime.com or before Thursday 25th August, 2022, failing which the Company shall, in adherence to the requirements of the said Act and the Rules, transfer the Shares on which Dividend has remained unclaimed for seven consecutive years to the IEPF Authority. In case of any further information/queries on the subject matter, please contact the Company's Registrar and Transfer Agent M/s Link Intime (India) Pvt. Ltd. C-101, 24th Park, LBS Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400 083. Tel: (022) 49118100 / 49116280. e-mail: info@linkintime.co.in or the Company's Secretarial Department at investors@indianhumpipe.com; info@indianhumpipe.com.

For The Indian Hume Pipe Company Limited
Sd/-
S.M. Damke
Company Secretary

Place: Mumbai
Date: 28th April, 2022

PNB Housing Finance Limited
Ghar Ki Baat
Regd. Office: 9th Floor Antriksh Bhawan, 22, K. G. Marg, New Delhi-110001
Phone: 011-23445200 | Email: investor.services@pnbhousing.com, Website: www.pnbhousing.com
CIN : L65922DL1988PLC033856

EXTRACT OF CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2022

Sl. No.	PARTICULARS	Quarter Ended		Year Ended	
		31.03.2022 (Audited)	31.03.2022 (Audited)	31.03.2021 (Audited)	31.03.2021 (Audited)
1.	Total Income from Operations	1,425.42	6,195.93	1,831.68	7,603.92
2.	Net Profit for the period (Before Tax, Exceptional and Extraordinary Item)	223.78	1,083.96	188.14	1,207.03
3.	Net Profit for the period Before Tax. (After Exceptional and Extraordinary Item)	223.78	1,083.96	188.14	1,207.03
4.	Net Profit for the period After Tax. (After Exceptional and Extraordinary Items)	169.54	836.48	127.03	929.90
5.	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period after tax and other Comprehensive Income after tax)	241.16	933.79	166.62	909.21
6.	Equity Share Capital	168.60	168.60	168.27	168.27
7.	Reserve (excluding Revaluation Reserve)	9,703.03	9,703.03	8,754.76	8,754.76
8.	Securities Premium Account	4,062.41	4,062.41	4,047.90	4,047.90
9.	Net Worth	9,871.63	9,871.63	8,923.03	8,923.03
10.	Paid up Debt Capital/outstanding Debt	53,004.97	53,004.97	59,393.82	59,393.82
11.	Outstanding Redeemable Preference shares	-	-	-	-
12.	Debt Equity Ratio	5.37	5.37	6.72	6.72
13.	Earnings per Share (of ₹10/- each)*				
	(1) Basic (₹)	10.06	49.64	7.55	55.29
	(2) Diluted (₹)	10.03	49.53	7.55	55.26
14.	Capital Redemption Reserve	NA	NA	NA	NA
15.	Debt Redemption Reserve	NA	NA	NA	NA
16.	Debt Service Coverage Ratio	NA	NA	NA	NA
17.	Interest Service Coverage Ratio	NA	NA	NA	NA

* EPS for the quarter are not annualised.

The key data relating to standalone financial results of PNB Housing Finance Limited is as under: (₹ in Crore)

Sl. No.	PARTICULARS	Quarter Ended		Year Ended	
		31.03.2022 (Audited)	30.03.2022 (Audited)	31.03.2021 (Audited)	31.03.2021 (Audited)
1.	Total Income from Operations	1,414.16	6,141.09	1,813.40	7,565.20
2.	Profit before tax	223.08	1,062.77	174.52	1,186.72
3.	Tax Expense	53.12	240.85	44.54	261.50
4.	Net Profit after Tax	169.96	821.92	129.98	925.22
5.	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period after tax and other Comprehensive Income after tax)	241.09	918.54	169.35	903.97

NOTES:
1. The above-mentioned results for the quarter and year ended March 31, 2022 are reviewed and recommended by the Audit Committee of Board and subsequently approved by Board of Directors at the meeting held on April 28, 2022.
2. The extent to which the ongoing COVID 19 pandemic, including the current and any further spread would impact the Company's future results will depend on economic situation, which is highly unpredictable. The Company will continue to closely monitor any material changes to future economic conditions. However, operating in the secured mortgage asset business we believe we hold a much stable asset class which can withstand the pandemic relatively better compared other asset classes.
3. During the quarter ended March 31, 2022, the Company has allotted 12,500 equity shares of Rs. 10 each pursuant to exercise of stock options by employees.
4. The above is an extract of the detailed format of Financial Results for quarter and year ended March 31, 2022 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 and 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter and year ended March 31, 2022 are available on BSE (www.bseindia.com), NSE (www.nseindia.com) and the website of the Company (www.pnbhousing.com).
5. For other line items referred in Regulation 52(4) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, pertinent disclosures have been made to Stock Exchanges and available on BSE (www.bseindia.com), NSE (www.nseindia.com) and the website of the Company (www.pnbhousing.com).

For PNB Housing Finance Limited
Hardyaj Prasad
Managing Director & CEO
DIN : 08024303

Date : April 28, 2022
Place : New Delhi
WE ACCEPT PUBLIC DEPOSITS AT ATTRACTIVE RATES OF INTEREST | CALL : 1800-120-8000 | SMS : PNBHPL TO 50161 | Website : www.pnbhousing.com